



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA**

Morning Session

Q1. निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गये शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए ।
अरण्य

- A. वन
B. स्त्री
C. रात्रि
D. महल

Q2. निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गये शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए ।
औचक

- A. शुक्ल
B. सहसा
C. स्तूप
D. क्रमिक

Q3. निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गये शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए ।
विडौजा

- A. झष
B. कानन
C. सुरपति
D. नलिन

Q4. निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गये शब्द का विपरीत (विलोम) शब्द चुनिए ।
गतिवान

- A. गतिहीन
B. अगतिवान
C. सुगतिवान
D. गतिहिन

Q5. नीचे दिये गये मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए ।
गागर में सागर भरना

- A. अवसर का लाभ उठना
B. विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना
C. संक्षिप्त बात को विस्तृत में कहना
D. संकट की स्थिति में होना



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA**

Morning Session

Q6. नीचे दिये गये मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए ।
खुशामदी टट्टू

A. बीमार होना

B. नष्ट होना

C. मुँहदेखी करना

D. मन में उरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना

Q7. निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गये शब्द का एकवचन रूप चुनिए ।
गौँ

A. गायें

B. गाय

C. गाँव

D. गौ

Q8. निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गये शब्द का बहुवचन रूप चुनिए ।
गृहिणी

A. गृहिणी

B. गृहिणिँ

C. गृहिणियाँ

D. गृहिणीये

Q9. निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गये शब्द का बहुवचन रूप चुनिए ।
माता

A. माताश्री

B. माताएं

C. माताओं

D. विकल्प B & C दोनों (BOTH OPTION B & C)



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q10. निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गये शब्द का बहुवचन रूप चुनिए।
युव

- A. युव B. युवाँ
C. युवजन D. युवे

Q11. Choose the correct **synonym** of the word given below:
Poignant

- A. Praised B. Gentle
C. Heart breaking D. Cheerful

Q12. Choose the correct **synonym** for the word given below:
Ludicrous

- A. Sensible B. Prudent
C. Logical D. Ridiculous

Q13. Choose the correct **antonym** for the word given below:
Ornery

- A. Grumpy B. Obstinate
C. Ill natured D. Amiable

Q14. Choose the correct **antonym** for the word given below:
Pursuit

- A. Chase B. Retreat
C. Quest D. Purchase

Q15. Choose the correct meaning for:
"Hear it on the grape vine"

- A. Testimony B. Rumour
C. Proof D. Audition



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Morning Session

Q16. Choose the correct meaning for:
"In dire straits"

- A. Good fortune
B. Providence
C. Indigence
D. Extremely happy

Q17. Find the grammatically correct sentence from the following options.

- A. He gathered the courage to speak against his father.
B. He gathers the courage speak against his father.
C. He gathering the courage to speak against his father.
D. He will have gathered the courage to speak against his father.

Q18. Find the grammatically correct sentence from the following options.

- A. His entry to the office was restrict.
B. His entry to the office was restricted.
C. His entry to the office was restricting.
D. His entry to the office was restrictable.

Q19. Find the grammatically correct sentence from the following options.

- A. The helium filled balloon rose in the air.
B. The helium filled balloon rose into the air.
C. The helium filled balloon rose above the air.
D. The helium filled balloon rose on top of the air.

Q20. Complete the sentence using correct options for each blank that best fits the meaning of the sentence as a whole.

The _____ ceremony of the ancient tribes can be shocking as it involves human sacrifices.

- A. Immolation
B. Ritualistic
C. Atonement
D. Penance

Q21. The Council of Ministers who served in the court of Shivaji is named as _____.

- A. Ashtadiggaja
B. Ashtapradhan
C. Ashtaratna
D. Panchapradhan



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q21. शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाले मंत्रिपरिषद का नाम _____ है।

- A. अष्टदिग्गज
B. अष्टप्रधान
C. अष्टरत्न
D. पंचप्रधान

Q22. 'Satyameva jayate' was first recited by _____.

- A. Bankim Chandra Chatterjee
B. Lokmanya Tilak
C. Lal Bahadur Shastri
D. Madan Mohan Malavya

Q22. 'सत्यमेव जयते' पहली बार _____ द्वारा सुनाया गया था।

- A. बंकिम चंद्र चटर्जी
B. लोकमान्य तिलक
C. लाल बहादुर शास्त्री
D. मदन मोहन मालवीय

Q23. Who among the following served thrice as the Chief minister of Jharkhand?

- A. Shibhu Soren
B. Raghubar Das
C. Hemant Soren
D. Madhu Koda

Q23. निम्नलिखित में से किसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीन बार कार्य किया?

- A. शिबू सोरेन
B. रघुबर दास
C. हेमंत सोरेन
D. मधु कोड़ा

Q24. Which of these following islands has an active Volcano?

- A. Lakshadweep
B. Andaman Islands
C. Diu
D. Daman

Q24. निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है?

- A. लक्षद्वीप
B. अंडमान द्वीप समूह
C. दीव
D. दमन



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q25. Which of these is a Vulnerable species?

- A. Marbled cat
B. Gharial
C. Pygmy Hog
D. Lion Tailed Macaque

Q25. इनमें से कौन सी एक असुरक्षित प्रजाति है?

- A. रेखांकित बिल्ली
B. घड़ियाल
C. पिग्मी हॉग
D. शेर पूँछ मकाक

Q26. Which of these institutes is responsible for procuring and stocking food grains?

- A. ICAR
B. FSSAI
C. APEDA
D. FCI

Q26. खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है?

- A. ICAR
B. FSSAI
C. APEDA
D. FCI

Q27. Where was our national flag first unfurled overseas?

- A. Johannesburg, South Africa
B. Newark, USA
C. Stuttgart, Germany
D. Auckland, New Zealand

Q27. हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहां फहराया गया था?

- A. जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका
B. नेवार्क, USA
C. स्टटगार्ट, जर्मनी
D. ऑकलैंड, न्यू जीलैंड

Q28. Which of the following bank's logo represents the Triveni Sangam?

- A. Punjab National Bank
B. Allahabad Bank
C. Canara Bank
D. Kotak Mahindra Bank



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q28. निम्न में से कौन सा बैंक का लोगो त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करता है?

- A. पंजाब नेशनल बैंक
B. इलाहाबाद बैंक
C. केनरा बैंक
D. कोटक महिंद्रा बैंक

Q29. _____ was the last dynasty of the Delhi sultanate which was founded by Bahlul Khan Lodhi.

- A. The Tughlag Dynasty
B. The Slave Dynasty
C. The Lodhi Dynasty
D. The Khiliji Dynasty

Q29. _____ दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बाहुल खान लोदी ने की थी।

- A. तुगलक वंश
B. गुलाम वंश
C. लोदी वंश
D. खिलजी वंश

Q30. Who was known as the Nawab of Jhajjar ?

- A. Abdur Rahman Khan
B. Banarasi Das
C. Lala Hukum Chand Jain
D. Chaudhary Devi Lal

Q30. झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता था?

- A. अब्दुर रहमान खान
B. बनारसी दास
C. लाला हुकुम चंद जैन
D. चौधरी देवीलाल

Q31. Who was popularly known as the 'Grand Old Man of Haryana'?

- A. Sir Chhotu Ram
B. Rao Tularam
C. Pandit Neki Ram Sharma
D. Pandit Shri Ram Sharma

Q31. लोकप्रिय 'हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन' के रूप में किसे जाना जाता था?

- A. सर छोटू राम
B. राव तुलाराम
C. पंडित नेकी राम शर्मा
D. पंडित श्री राम शर्मा



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q32. _____ scheme was implemented on 27th October 2018 in Haryana for installation of one lakh solar lighting systems in the state.

- A. Operator Muskan
B. Salamati
C. Anukul gruh yojana
D. Manohar jyoti

Q32. _____ योजना राज्य में एक लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी।

- A. संचालक मुस्कान
B. सलामती
C. अनुकुल गृह योजना
D. मनोहर ज्योति

Q33. Union Cabinet approved setting up of new AIIMS at _____, Haryana at a cost of Rs 1299 crore.

- A. Manethi
B. Faridabad
C. Palwal
D. Hisar

Q33. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1299 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा में _____ में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी।

- A. मनेठी
B. फरीदाबाद
C. पलवल
D. हिसार

Q34. Who received the Padma Shri Award in the field of sports in Haryana for the year 2019 ?

- A. Yuvraj Singh
B. Bajrang Punia
C. Deepa Malik
D. Sakshi Malik

Q34. हरियाणा में खेल के क्षेत्र में वर्ष 2019 के लिए पद्म श्री पुरस्कार किसे मिला?

- A. युवराज सिंह
B. बजरंग पुनिया
C. दीपा मलिक
D. साक्षी मलिक



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q35. Haryana government has launched a mobile app named Shiksha Setu with an aim to help the students of the state on _____.

- A. 18th December 2018
B. 19th December 2018
C. 20th December 2018
D. 22nd December 2018

Q35. हरियाणा सरकार ने _____ को राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

- A. 18th दिसंबर 2018
B. 19th दिसंबर 2018
C. 20th दिसंबर 2018
D. 22nd दिसंबर 2018

Q36. _____ village in Haryana became the first village to sing National Anthem every morning.

- A. Pali
B. Sunped
C. Jammikunta
D. Bharakpur

Q36. हरियाणा में _____ गाँव हर सुबह राष्ट्रगान गाने वाला पहला गाँव बन गया।

- A. पाली
B. सुनपेड़
C. जम्मीकुंटा
D. भरकपुर

Q37. Saint Garibdas belonged to which district of Haryana?

- A. Rewari
B. Jhajjar
C. Ambala
D. Faridabad

Q37. संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे?

- A. रेवाड़ी
B. झज्जर
C. अंबाला
D. फरीदाबाद

Q38. Who wrote the urdu literature "Dastana Mazdur"?

- A. Bhagirath Laal Zakhmi
B. Jemini Sarsar
C. Sultan Sahib
D. Ramakrishna Tamanna



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q38. उर्दू साहित्य "दस्ताना मज़दूर" किसने लिखी है?

- A. भागीरथ लाल ज़ख्मी
B. जेमिनी सरसार
C. सुल्तान साहब
D. रामकृष्ण तमन्ना

Q39. Bijnori is the purest form of _____ language.

- A. Pahartaali
B. Hindi
C. Urdu
D. Kauravi

Q39. बिजनौरी _____ भाषा का सबसे शुद्ध रूप है।

- A. पहरताली
B. हिंदी
C. उर्दू
D. कौरवी

Q40. How many texts of Nath community have been found in the manuscript museum of kurukshetra university ?

- A. Seven
B. Five
C. Three
D. Four

Q40. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं?

- A. सात
B. पांच
C. तीन
D. चार

Q41. _____ was declared a bird sanctuary by Indian government on 3rd June 2009.

- A. Kalesar
B. Abubshshar
C. Bhindawas
D. Nahar

Q41. _____ को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।

- A. कलेसर
B. अबुबशशार
C. भिंडावास
D. नाहर



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q42. The soil of districts Ambala and Kaithal district is _____ in colour.

- A. Red **B. Yellowish - grey**
C. Black D. Yellowish - brown

Q42. अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग _____ है।

- A. लाल **B. पीला - धूसर**
C. काली D. पीले भूरे रंग

Q43. Pipli mini zoo is situated in the district of _____ in Haryana.

- A. Bhiwani **B. Kurukshetra**
C. Rohtak D. Panchkula

Q43. पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा में _____ जिले में स्थित है।

- A. भिवानी **B. कुरुक्षेत्र**
C. रोहतक D. पंचकुला

Q44. Horticulture department of Haryana had planned to enhance the area under horticulture cultivation from 7 to _____ percent by 2016.

- A. 25** B. 15
C. 18 D. 10

Q44. हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र को 7 से _____ प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई थी।

- A. 25** B. 15
C. 18 D. 10

Q45. The rail route that connects Gurugram to _____ is one of the oldest and largest junction of Haryana.

- A. Sonipat **B. Rewari**
C. Dadri D. Narwana



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q45. गुरुग्राम को _____ से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है।

- A. सोनीपत
B. रेवाड़ी
C. दादरी
D. नरवाना

Q46. According to sacchar formula Haryana was subdivided into ____ Parts.

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Q46. सच्चर फार्मूला के अनुसार, हरियाणा को _____ भागों में विभाजित किया गया था।

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Q47. _____ called the region of Haryana as Haridhanakya.

- A. Dr. H R Gupta
B. Dr. Budh Prakash
C. Rahul Sankrityayan
D. Yadunath sarkar

Q47. _____ ने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधनाक्य कहा।

- A. डॉ एच आर गुप्ता
B. डॉ बुद्ध प्रकाश
C. राहुल सांकृत्यायन
D. यदुनाथ सरकार

Q48. Who called the region of Haryana as Hariyal?

- A. Dr. Budh Prakash
B. Yadunath Sarkar
C. Dr. H R Gupta
D. Vibudh Shridhar

Q48. हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा है?

- A. डॉ बुद्ध प्रकाश
B. यदुनाथ सरकार
C. डॉ एच आर गुप्ता
D. विभु श्रीधर



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q49. Kangan is worn on which part by women of Haryana ?

- A. Wrist
B. Ears
C. Neck
D. Nose

Q49. हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती है?

- A. कलाई
B. कान
C. गरदन
D. नाक

Q50. _____ is considered as a bad omen by people of Haryana.

- A. Hiran Darshan
B. Ankh Phadakna
C. Jidi Pe Juti Chadhna
D. Doob ka darshan

Q50. _____ को हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है।

- A. हिरन दर्शन
B. आँख फड़कना
C. जिदी पे जूती चढना
D. दूब का दर्शन

Q51. Phool is a traditional ornament of Haryana worn by women on their _____.

- A. Ears
B. Head
C. Chest
D. Wrist

Q51. फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके _____ पर पहना जाता है।

- A. कान
B. सिर
C. छाती
D. कलाई

Q52. Second generation computers are based on _____.

- A. integrated circuit
B. vacuum tubes
C. VLSI microprocessor
D. transistor



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q52. दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर _____ पर आधारित होते हैं।

- A. एकीकृत परिपथ (इंटीग्रेटेड सर्किट) B. वैक्यूम ट्यूब
C. VLSI माइक्रोप्रोसेसर D. ट्रांजिस्टर

Q53. A computer keyboard cannot be of _____ type.

- A. 5 - Pin DIN B. USB
C. PS/2 D. 1 - Pin DIN

Q53. एक कंप्यूटर कीबोर्ड _____ प्रकार का नहीं हो सकता है।

- A. 5 - पिन डिन B. USB
C. PS/2 D. 1 - पिन डिन

Q54. Gmail manages the mail into _____ categories.

- A. five B. six
C. three D. four

Q54. जीमेल मेल को _____ श्रेणियों में प्रबंधित करता है।

- A. पांच B. छह
C. तीन D. चार

Q55. The shortcut _____ helps to access the file menu options in the current program.

- A. Alt + Enter B. Alt + Tab
C. Alt + E D. Alt + F

Q55. शॉर्टकट _____ वर्तमान कार्यक्रम में फ़ाइल मेनू विकल्पों तक पहुँचने में मदद करता है।

- A. Alt + Enter B. Alt + Tab
C. Alt + E D. Alt + F



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Morning Session

Q56. A _____ stores such instructions that are required to start a computer.

- A. ROM
B. RAM
C. Mother Board
D. PROM

Q56. एक _____ ऐसे निर्देश संग्रहीत करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक हैं।

- A. ROM
B. RAM
C. मदर बोर्ड
D. PROM

Q57. Which of these is **NOT** a function of an operating system?

- A. Secondary storage management
B. Limited tracking of devices
C. Command interpretation
D. Communication management

Q57. इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है?

- A. सेकेंडरी स्टोरेज प्रबंधन
B. उपकरणों की सीमित ट्रैकिंग
C. कमान की व्याख्या
D. संचार प्रबंधन

Q58. The device which is used to obtain images of architectural drawings, seismic waves is _____.

- A. Laser printer
B. Inkjet Printer
C. Plotter
D. Offset printer

Q58. वह उपकरण जिसका उपयोग वास्तु चित्र, भूकंपीय तरंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, _____ है।

- A. लेजर प्रिंटर
B. इंकजेट प्रिंटर
C. प्लॉटर
D. ऑफसेट प्रिंटर

Q59. _____ allows us to verify the author, date and time of signatures, and authenticate the message contents.

- A. Digital signature
B. Encrypt
C. Integrity
D. Non – repudiation



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q59. _____ हमें हस्ताक्षरों के लेखक, दिनांक और समय को सत्यापित करने, संदेश सामग्री को प्रमाणित करने की अनुमति देते हैं।

A. डिजिटल हस्ताक्षर

B. एन्क्रिप्ट

C. अखंडता

D. नॉन - रेपुडिएशन

Q60. Find the odd man out.

Tennis, Football, Basketball, Rugby

A. Football

B. Rugby

C. Basketball

D. Tennis

Q60. निम्न में से भिन्न को चुनें:

टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी

A. फुटबॉल

B. रग्बी

C. बास्केटबॉल

D. टेनिस

Q61. Complete the analogy.

MOUSE : EMOSU::KITTEN:?

A. NKETTI

B. NKIETT

C. NKTTEI

D. NKETIT

Q61. नीचे दिए गए पत्र में चिन्ह (: :) के दायीं ओर दो शब्द दिए गए हैं। ये दोनों शब्द आपस में किसी कारण से संबंधित हैं। विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से वह शब्द ज्ञात कीजिये जो चिन्ह (: :) के दायीं ओर दिए गए शब्द से उसी प्रकार संबंधित है तथा प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है।

MOUSE : EMOSU::KITTEN:?

A. NKETTI

B. NKIETT

C. NKTTEI

D. NKETIT

Q62. Five students Ram, Shyam, Komal, Riya and Rita are sitting on a bench. Ram and Riya sit at the two ends of the bench. Shyam always sits next to Ram and Komal doesn't like sitting next to Shyam. Where does Rita sit?

A. Middle

B. Next to Riya

C. Two places next to Shyam

D. Two places next to Komal



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q62. पांच छात्र राम, श्याम, कोमल, रिया और रीता एक बेंच पर बैठे हैं। राम और रिया बेंच के दोनों सिरों पर बैठते हैं। श्याम हमेशा राम के बगल में बैठा है और कोमल श्याम के बगल में बैठना पसंद नहीं करती। रीता कहाँ बैठती है?

A. मध्य

B. रिया के बगल में

C. श्याम से दो जगह दूर

D. कोमल से दो जगह दूर

Q63. In a row, George, James, Ann, Kim and John are seated. George does not sit next to Ann, James sits two places to the right of John. If Kim is sitting two places from the extreme right and two places to the right of George, then who sits at the extreme left end of the row?

A. John

B. Kim

C. James

D. Ann

Q63. एक पंक्ति में, जॉर्ज, जेम्स, एन, किम और जॉन बैठे हैं। जॉर्ज एन के बगल में नहीं बैठा है, जेम्स जॉन से दो स्थानों की दूरी पर बैठा है। यदि किम दाईं सिरे से दो स्थानों की दूरी पर और जॉर्ज के दाईं ओर से दो स्थानों की दूरी पर बैठा है, तो पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है?

A. जॉन

B. किम

C. जेम्स

D. एन

Q64. Raghav started to school from home by going 10km north followed by 5km to his right, then 5km to the south and finally 2km to his left. In which direction is the school with respect to his home?

A. North west

B. North

C. North east

D. East

Q64. राघव ने 10 किमी उत्तर की ओर चलकर घर से स्कूल जाना शुरू किया, उसके बाद 5 किमी दक्षिण की ओर, फिर 5 किमी दक्षिण में और अंत में 2 किमी उनके बाईं ओर। उनके घर के संबंध में स्कूल किस दिशा में है?

A. उत्तर पश्चिम

B. उत्तर

C. उत्तर पूर्व

D. पूर्व



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Morning Session

Q65. Rajesh went 15km to the west from my home, then turned left and walked 14 km. He then turned East and walked 25 km and finally turned left covered 14 km. How far was he from my house?

- A. 5 km
B. 10 km
C. 40 km
D. 80 km

Q65. राजेश मेरे घर से 15 किमी पश्चिम में गया, फिर बाएं मुड़ा और 14 किमी चला। फिर उसने पूर्व की ओर रुख किया और 25 किमी तक चला और अंत में बाएं मुड़ गया और 14 किमी चला। वह मेरे घर से कितनी दूर था?

- A. 5 km
B. 10 km
C. 40 km
D. 80 km

Q66. Ashok finds a man related to him while travelling on a bus. The man is the husband of the sister of his mother. How is the man related to the boy?

- A. Brother
B. Nephew
C. Uncle
D. Father

Q66. अशोक एक बस में यात्रा के दौरान उससे संबंधित एक आदमी को पाता है। वह पुरुष उसकी मां की बहन का पति है। आदमी लड़के से कैसे संबंधित है?

- A. भाई
B. भतीजा
C. मौसा
D. पिता

Q67. Pointing to a photograph Arun said, 'She is the mother of my brother's son's wife's daughter.' How is Arun related to the lady's husband?

- A. Uncle
B. Daughter-in-law
C. Cousin
D. Brother

Q67. अरुण ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा की वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी की मां है। अरुण महिला के पति से कैसे संबंधित है?

- A. चाचा
B. बहू
C. चचेरा भाई
D. भाई



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q68. Complete the series :
A, Z, D, W, G, ?

- A. S
C. H
- B. R
D. T

Q68. श्रृंखला को पूरा करें:
A, Z, D, W, G, ?

- A. S
C. H
- B. R
D. T

Q69. In a certain code, VIDEOS is written as UJCFNT and WOULD is written as VPTMC.
How will RIGHT be written in that code?

- A. QJHIS
C. SSHGU
- B. QJFIS
D. SSGHU

Q69. एक निश्चित कोड में, VIDEOS को UJCFNT और WOULD को VPTMC के रूप में लिखा जाता है। उस कोड में
RIGHT कैसे लिखा जाएगा?

- A. QJHIS
C. SSHGU
- B. QJFIS
D. SSGHU

Q70. Arrange the following names in alphabetical order of their first name.
1. Suresh Yandi 2. Vijay Chopra 3. Paul Trent 4. Thomas James

- A. 3, 4, 1, 2
C. 3, 1, 4, 2
- B. 1, 3, 4, 2
D. 1, 4, 3, 2

Q70. निम्नलिखित नामों को उनके पहले नाम के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें।
1. Suresh Yandi 2. Vijay Chopra 3. Paul Trent 4. Thomas James

- A. 3, 4, 1, 2
C. 3, 1, 4, 2
- B. 1, 3, 4, 2
D. 1, 4, 3, 2



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q71. If the following series is written in the reverse order, which number will be the ninth number from the left?

1, 3, 7, 2, 4, 5, 4, 3, 7, 9, 2, 1, 4, 7, 5

- A. 4
B. 5
C. 1
D. 7

Q71. यदि निम्नलिखित श्रंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो कौन सी संख्या बाईं ओर से नौवीं संख्या होगी?

1, 3, 7, 2, 4, 5, 4, 3, 7, 9, 2, 1, 4, 7, 5

- A. 4
B. 5
C. 1
D. 7

Q72. Who among the following are born in the month which are three months behind and after July?

Vijay was born on 12th April 2000.

Jinson was born on 1st May 2001.

Hari was born on 3rd October 1998.

Rohit was born on 15th March 1995.

- A. All of them
B. Hari and Vijay
C. Vijay and Rohit
D. Only Jinson

Q72. निम्नलिखित में से कौन उस महीने में पैदा हुए हैं जो जुलाई से तीन महीने पहले और बाद में हैं?

विजय का जन्म 12 अप्रैल 2000 को हुआ था।

जिंसन का जन्म 1 मई 2001 को हुआ था।

हरि का जन्म 3 अक्टूबर 1998 को हुआ था।

रोहित का जन्म 15 मार्च 1995 को हुआ था।

- A. सभी
B. हरि और विजय
C. विजय और रोहित
D. केवल जिंसन

Q73. If January 31st is on a Monday, then which of the following would be the Sunday after that?

- A. 6th February
B. 5th February
C. 7th February
D. 8th February



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q73. यदि 31st जनवरी सोमवार है, तो उसके बाद वाला रविवार कौन सा होगा?

- A. 6th फरवरी
B. 5th फरवरी
C. 7th फरवरी
D. 8th फरवरी

Q74. In which order the following address would receive the letters, if the postman decides to deliver them in the descending order of their pin codes and if they are the same he consider the names in chronological orders?

1. Jerry Joe, #11, 2nd street, 8th phase, New York - 1241
2. Adam Scott, #23, 2nd street, 8th phase, New York - 1315
3. Neil Young, #12, 1st street, 10th phase, New York - 1315
4. Angus White, #1, 3rd street, 1st phase, New York - 1454

- A. 4, 2, 3, 1
B. 4, 3, 2, 1
C. 4, 2, 1, 3
D. 3, 2, 1, 4

Q74. यदि डाकिया उन्हें पिन कोड के अवरोही क्रम में वितरित करने का निर्णय लेता है और यदि वे समान हैं, तो वे निम्नलिखित आदेशों को किस क्रम में प्राप्त करेंगे?

1. Jerry Joe, #11, 2nd street, 8th phase, New York - 1241
2. Adam Scott, #23, 2nd street, 8th phase, New York - 1315
3. Neil Young, #12, 1st street, 10th phase, New York - 1315
4. Angus White, #1, 3rd street, 1st phase, New York - 1454

- A. 4, 2, 3, 1
B. 4, 3, 2, 1
C. 4, 2, 1, 3
D. 3, 2, 1, 4

Q75. Simplify:

$$9975 \div \{95 + 2(20 - 1134 - 1119)\}$$

- A. 85
B. 75
C. 105
D. 95

Q75. इसे सरल कीजिए:

$$9975 \div \{95 + 2(20 - 1134 - 1119)\}$$

- A. 85
B. 75
C. 105
D. 95



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q76. Two trains, 150m and 250m long, running in opposite directions at 40kmph and 50kmph respectively meet each other. They will completely pass each other in:

- A. 16 secs
B. 24 secs
C. 20 secs
D. 25 secs

Q76. दो ट्रेनों, 150 मीटर और 250 मीटर लंबी, 40 किमी प्रति घंटे और 50 किमी प्रति घंटे की गति में विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे पूरी तरह से एक दूसरे को पार करेंगी:

- A. 16 सेकेंड
B. 24 सेकेंड
C. 20 सेकेंड
D. 25 सेकेंड

Q77. What should be added to each term of the ratio 7:12 so that the ratio becomes 4:5?

- A. 13
B. 19
C. 15
D. 10

Q77. अनुपात 7:12 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि अनुपात 4: 5 हो जाए?

- A. 13
B. 19
C. 15
D. 10

Q78. Divide Rs.5250 in three parts such that 5 times the first, 7 times the second and 9 times the third are equal. Then the sum of first and second is:

- A. Rs.4500
B. Rs.3500
C. Rs.4000
D. Rs.3000

Q78. 5250 रुपये को तीन भागों में विभाजित करें जैसे कि पहले का 5 गुना, दूसरे का 7 गुना और तीसरे का 9 गुना बराबर हो। फिर पहले और दूसरे का योग है:

- A. 4500 रुपये
B. 3500 रुपये
C. 4000 रुपये
D. 3000 रुपये

Q79. 28% of 675 is _____.

- A. 200
B. 156
C. 189
D. 315



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q79. 675 का 28% _____ है

- A. 200
B. 156
C. 189
D. 315

Q80. In an examination 15% of the students failed. If 1500 students appeared in the examination, how many passed?

- A. 1250
B. 1375
C. 1275
D. 1150

Q80. एक परीक्षा में 15% छात्र फेल हो जाते हैं। यदि 1500 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, तो कितने उत्तीर्ण हुए?

- A. 1250
B. 1375
C. 1275
D. 1150

Q81. The average weight of a class of 32 students is 48.5kg. If the weight of the teacher be included, the average raises by 1000 grams. What is the weight of the teacher?

- A. 75.5 kg
B. 89.5 kg
C. 62.5 kg
D. 81.5 kg

Q81. 32 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 48.5kg है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है, तो औसत 1000 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या है?

- A. 75.5 kg
B. 89.5 kg
C. 62.5 kg
D. 81.5 kg

Q82. The average of marks in mathematics for 5 students was found to be 65. Later on, it was found that in the case of one student, the marks 37 were misread as 73. Find the correct average.

- A. 57.8
B. 61.2
C. 63.8
D. 60.2



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q82. 5 छात्रों के लिए गणित में अंकों का औसत 65 पाया गया था। बाद में, यह पाया गया कि एक छात्र के प्रकरण में, अंक 37 को 73 के रूप में गलत समझा गया था। सही औसत ज्ञात करें।

- A. 57.8
B. 61.2
C. 63.8
D. 60.2

Q83. A soft toy was sold at a gain of 8%. Had it been sold for Rs.36 more, the gain would have been 12%. Find the cost price of the soft toy?

- A. Rs. 1500
B. Rs. 600
C. Rs. 1200
D. Rs. 900

Q83. एक सॉफ्ट टॉय 8% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 36 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो लाभ 12% होता। सॉफ्ट टॉय की लागत मूल्य ज्ञात कीजिये?

- A. 1500 रुपये
B. 600 रुपये
C. 1200 रुपये
D. 900 रुपये

Q84. Latha buys a smart TV for Rs.70,700 and sold it at a gain of $4\frac{3}{7}\%$. For how much does she sell it?

- A. Rs.72474
B. Rs.73831
C. Rs.74147
D. Rs.75684

Q84. लता स्मार्ट टीवी 70,700 रुपये में खरीदती है और इसे $4\frac{3}{7}\%$ की लाभ दर से बेचती है। वह इसे कितने में बेचती है?

- A. Rs.72474
B. Rs.73831
C. Rs.74147
D. Rs.75684

Q85. The heat produced in a conductor is directly proportional to its _____.

- A. current
B. voltage
C. resistance
D. conductance



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Morning Session

Q85. एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसके _____ के समानुपातिक होती है।

- A. विद्युत प्रवाह
B. वोल्टेज
C. प्रतिरोध
D. प्रवाहकत्व

Q86. The transverse nature of light is best explained by _____.

- A. diffraction
B. polarization
C. reflection
D. interference

Q86. प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को _____ द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है।

- A. विवर्तन
B. ध्रुवीकरण
C. प्रतिबिंब
D. व्यतिकरण

Q87. Which of the following principles does **NOT** explain the filling of electrons in molecular orbitals of atoms?

- A. Paul's exclusion principle
B. Aufbau principle
C. Hund's rule
D. De Broglie principle

Q87. निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परमाणुओं के आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के भरने की व्याख्या नहीं करता है?

- A. पॉल का अपवर्जन सिद्धांत
B. ऑफबाऊ सिद्धांत
C. हुंड का नियम
D. डी ब्रोगली सिद्धांत

Q88. Which of these pairs are **INCORRECT**?

- A. Copper - Smelting
B. Lead - Froth Floatation process
C. Zinc - Mc Arthur and Forrest's cyanide process
D. Chromium - Aluminothermic process

Q88. इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है?

- A. तांबा - गलाने वाली प्रक्रिया
B. लीड - फ्रॉट फ्लोटेशन प्रक्रिया
C. जस्ता - मैक आर्थर और फॉरेस्ट की साइनाइड प्रक्रिया
D. क्रोमियम - एल्युमिनोथर्मिक प्रक्रिया



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 13, Lower Division Clerk (Field Cadre),
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session**

Q89. _____ is the variation in the chromosome number that occurs due to the duplication of set of chromosomes.

- A. Polyploidy
B. Diploidy
C. Euploidy
D. Aneuploidy

Q89. _____ गुणसूत्र संख्या में भिन्नता है जो गुणसूत्रों के सेट के दोहराव के कारण होती है।

- A. पॉलीप्लोइडी
B. डिप्लोइडी
C. यूप्लोइडी
D. अनुपलईडी

Q90. Polyuria, Polydipsia, Polyphagia are the symptoms of which of the following disease?

- A. Goiter
B. Acromegaly
C. Dwarfism
D. Diabetes Mellitus

Q90. पॉल्यूरिया, पॉलिडिप्सिया, पॉलीफेगिया निम्नलिखित में से किस बीमारी के लक्षण हैं?

- A. गण्डमाला
B. एक्रोमिगेली
C. बौनापन
D. मधुमेह